



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1946 (श10)

(सं0 पटना 890) पटना, बुधवार, 4 सितम्बर 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 सितम्बर 2024

एस० ओ० 448 दिनांक 4 सितम्बर 2024—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 8 के उप-नियम (4क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण, आवेदक की तस्वीर लेने और पंजीकरण के आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवेदक के संबंध में तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट सुविधा केंद्रों और उनसे संबंधित पता को निम्नवत अधिसूचित करते हैं :

सारणी

क्र०	अधिकारिता क्षेत्र (राज्य-कर अंचल)	सुविधा केंद्रों का नाम और पता
1	2	3
1	भागलपुर 1 अंचल, भागलपुर 2 अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), उपायुक्त/सहायक आयुक्त का कार्यालय, सीजीएसटी और सीएक्स, भागलपुर डिवीजन, किरण वाटिका, शीतला आश्रम रोड, तिलकामांझी, भागलपुर-812001
2	बेगूसराय अंचल, तेघड़ा अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), सहायक आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बेगूसराय डिवीजन, आशा ऋषिदेव काम्प्लेक्स का भवन, बाजार समिति के पास, एसएच-55, बेगूसराय- 851218

क्र०	अधिकारिता क्षेत्र (राज्य-कर अंचल)	सुविधा केंद्रों का नाम और पता
1	2	3
3	दरभंगा 1 अंचल, दरभंगा 2 अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), सहायक आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी और सीएक्स, दरभंगा डिवीजन, होल्डिंग नंबर - 1238, वार्ड नंबर 44/35, डॉ एन पी मिश्रा रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, बलभद्रपुर, लहेरियासराय, दरभंगा-846001
4	गया 1 अंचल, गया 2 अंचल, जहानाबाद अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), उपायुक्त/सहायक आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी और सीएक्स, गया डिवीजन, प्रथम तल, आरजे पैलेस, राय काशीनाथ मोड़, गया-823001
5	बाढ़ अंचल, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना सिटी पश्चिमी अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), उपायुक्त/सहायक आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी और सीएक्स, पटना (पूर्व) डिवीजन, द्वितीय तल, सुजीवन हाउस, बजरंगपुरी, गांधी सेतु एप्रोचरोड के पास, पटना-800007
6	गांधी मैदान अंचल, पटना दक्षिणी 1 अंचल, पटना दक्षिणी 2 अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), उपायुक्त/सहायक आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी और सीएक्स, पटना (मध्य) डिवीजन, चंद्रपुरा कॉम्प्लेक्स, पश्चिमी गांधी मैदान, बैंक रोड, पटना-800001
7	दानापुर 1 अंचल, दानापुर 2 अंचल, पटना मध्य 1 अंचल, पटना मध्य 2 अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), उपायुक्त/सहायक आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी और सीएक्स, पटना (पश्चिम) डिवीजन, द्वितीय तल, ई-ब्लॉक, कर्पूरी ठाकुर सदन, आशियाना दीघा रोड, पटना-800025
8	पूर्णिया 1 अंचल, पूर्णिया 2 अंचल, कटिहार अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), सहायक आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी और सीएक्स, पूर्णिया डिवीजन, न्यू सिपाही टोल, मरंगा रोड, पूर्णिया-854301
9	हाजीपुर अंचल,	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), सहायक आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी और सीएक्स, वैशाली डिवीजन, डाक बंगला रोड, हाजीपुर-844101
10	मुजफ्फरपुर पश्चिमी 1 अंचल, मुजफ्फरपुर पश्चिमी 2 अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), सहायक आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुजफ्फरपुर डिवीजन, इमलीचट्टी, मारीपुर ओवर ब्रिज के पास, मुजफ्फरपुर-842001
11	जमुई अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, जमुई अंचल, समाहरणालय के पास, कल्याणपुर, जमुई-811307
12	लखीसराय अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, लखीसराय अंचल, कोर्ट एरिया, जमुई मोड़, जेल रोड, लखीसराय पिन-811311
13	मुंगेर अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर अंचल, किला क्षेत्र, मुंगेर, पिन-811201

क्र०	अधिकारिता क्षेत्र (राज्य-कर अंचल)	सुविधा केंद्रों का नाम और पता
1	2	3
14	मधुबनी अंचल, झंझारपुर अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, मधुबनीअंचल, खादी भंडार रोड, नगर निगम कार्यालय के सामने, मधुबनी, बिहार -847211
15	समस्तीपुर अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, समस्तीपुर अंचल, मुख्य डाकघर के सामने, समाहरणालय के सामने, समस्तीपुर -848101
16	औरंगाबाद अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, औरंगाबाद अंचल, ओल्ड जीटी रोड, ब्लॉक मोर, औरंगाबाद - 824101
17	भभुआ अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, भभुआ अंचल, एसबीआई के पास, अखलासपुर, भभुआ- 821101
18	नवादा अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, नवादा अंचल, प्रसाद बिगहा, पुरानी रांची रोड, नवादा - 805110
19	सासाराम अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, सासाराम अंचल, काली स्थान के पास, पुरानी जीटी रोड, सासाराम-821115
20	बिहारशरीफ अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, बिहारशरीफ अंचल, पावर ग्रिड के सामने, बड़ी पहाड़ी, बिहारशरीफ -803101
21	कदमकुआं अंचल, पटना उत्तरी अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, कदमकुआं अंचल, कौटिल्य भवन, अंटा घाट, गांधी मैदान, पटना-800001
22	पटना पश्चिमी अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, पटना पश्चिमी अंचल, कौटिल्य भवन, अंटा घाट, गांधी मैदान, पटना-800001
23	शाहाबाद अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, शाहाबाद अंचल, सिविल कोर्ट क्षेत्र, जिला परिषद कार्यालय के पास, आरा-802301
24	बक्सर अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, बक्सरअंचल, पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने, पीएनबी के ऊपर, मेन रोड, बक्सर - 802101
25	फारबिसगंज अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, फारबिसगंज अंचल, एसडीओ कोर्ट के पास, फारबिसगंज - 854318

क्र०	अधिकारिता क्षेत्र (राज्य-कर अंचल)	सुविधा केंद्रों का नाम और पता
1	2	3
26	खगड़िया अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, खगड़िया अंचल, कचहरी रोड, स्टेट बैंक मुख्य शाखा के पास, खगड़िया - 851204
27	किशनगंज अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, किशनगंज अंचल, बिहार बस स्टैंड के पास, किशनगंज - 855107
28	मधेपुरा अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, मधेपुरा अंचल, पुरानी कचहरी परिसर के पास, एसडीओ कोर्ट के पास, मधेपुरा - 852113
29	सहरसा अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, सहरसा अंचल, एसपी कार्यालय के सामने, सहरसा - 852201
30	सुपौल अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, सुपौल अंचल, गौरव गढ़ चौक, पिपरा रोड, सुपौल-852131
31	गोपालगंज अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, गोपालगंज अंचल, जय श्री कॉम्प्लेक्स, घोष एवं सिन्हा पेट्रोल पंप के सामने, थावेरोड, गोपालगंज- 841428
32	सिवान अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, सीवान अंचल, सूचना भवन के सामने, कलेक्ट्रेट परिसर, सीवान - 841226
33	सारण 1 अंचल, सारण 2 अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, सारण -2 अंचल, एनआईसी कार्यालय के पीछे, समाहरणालय परिसर में, छपरा -841301
34	बगहा अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, बगहा अंचल, शास्त्रीनगर, बगहा, पश्चिम चंपारण- 845101
35	बेतिया अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, बेतिया अंचल, मोहरम चौक, बेतिया, पश्चिम चंपारण - 845438
36	मोतिहारी अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, मोतिहारी अंचल, कलेक्ट्रेट परिसर, कचहरी चौक के पास, मोतिहारी-845401
37	रक्सौल अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, रक्सौल अंचल, आश्रम रोड, रक्सौल-845305
38	सीतामढ़ी अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, सीतामढ़ी अंचल, दुर्गा मंदिर के पास, कोर्ट कंपाउंड के पास, डुमरा, सीतामढ़ी-843301

क्र०	अधिकारिता क्षेत्र (राज्य-कर अंचल)	सुविधा केंद्रों का नाम और पता
1	2	3
39	मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, कौटिल्य भवन, सदर अस्पताल के पास, कंपनी बाग, मुजफ्फरपुर- 842001
40	जहानाबाद अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त का कार्यालय, जहानाबाद अंचल, प्रथम तल, विकास भवन, समाहरणालय परिसर, जहानाबाद -804408
41	कटिहार अंचल	सुविधा केंद्र (जीएसटी सुविधा केंद्र), संयुक्त राज्य-कर आयुक्त का कार्यालय, कटिहार अंचल, मिरचाई बाड़ी, कटिहार - 854105

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12) 3864)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 सितम्बर 2024

एस० ओ० 448 दिनांक 4 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12) 3864)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 4th September 2024

S.O. 448 Date 4 September 2024- In exercise of the powers conferred by proviso to sub-rule(4A) of rule 8 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, hereby notifies the Facilitation Centres and corresponding address there of specified in column (3) of the Table below, in respect of the applicant falling under the jurisdiction area specified in column(2) of the said Table for the purpose of biometric-based Aadhaar authentication, taking photograph of the applicant and verification of original copy of documents uploaded with the application of registration:

TABLE

Sr. No.	JURISDICTION AREA (STATE-TAX CIRCLE)	NAME & ADDRESS OF FACILITATION CENTRES
1	2	3
1	Bhagalpur 1 Circle, Bhagalpur 2 Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Deputy/Assistant Commissioner, CGST & CX, Bhagalpur Division, Kiran Vatika, Shitla Ashram Road, Tilkamanjhi, Bhagalpur-812001

Sr. No.	JURISDICTION AREA (STATE-TAX CIRCLE)	NAME & ADDRESS OF FACILITATION CENTRES
1	2	3
2	Begusarai Circle, Teghra Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Assistant Commissioner, CGST & Central Excise, Begusarai Division, House of Asha Rishi Deo complex, Near Bazar Samiti, SH-55, Begusarai- 851218
3	Darbhanga 1 Circle, Darbhanga 2 Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Assistant Commissioner, CGST & CX, Darbhanga Division, Holding No.- 1238, Ward No. 44/35, Dr. N.P. Mishra Road, Near Congress Office, Balbhadrapur, Laheriyasari, Darbhanga-846001
4	Gaya 1 Circle, Gaya 2 Circle, Jehanabad Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Deputy/Assistant Commissioner, CGST & CX, Gaya Division, 1st Floor, R.J.Palace, Ray Kashinath Mod, Gaya-823001
5	Barh Circle, Patna City East Circle, Patna City West Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Deputy/Assistant Commissioner, CGST & CX, Patna (East) Division, 2nd Floor, Sujeevan House, Bajrangpuri, Near Gandhi Setu Approach Road, Patna-800007
6	Gandhi Maidan Circle, Patna South 1 Circle, Patna South 2 Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Deputy/Assistant Commissioner, CGST & CX, Patna (Central) Division, Chandrapura Complex, West Gandhi Maidan, Bank Road, Patna-800001
7	Danapur 1 Circle, Danapur 2 Circle, Patna Central 1 Circle, Patna Central 2 Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Deputy/Assistant Commissioner, CGST & CX, Patna (West) Division, 2nd Floor, E-Block, Karpoori Thakur Sadan, Ashiana Digha Road, Patna-800025
8	Purnea 1 Circle, Purnea 2 Circle, Katihar Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Assistant Commissioner, CGST & CX, Purnea Division, New Sipahi Toal, Maranga Road, Purnea-854301
9	Hajipur Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Assistant Commissioner, CGST & CX, Vaishali Division, Dak Banglow Road, Hajipur-844101
10	Muzaffarpur West 1 Circle, Muzaffarpur West 2 Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of the Assistant Commissioner, CGST & Central Excise, Muzaffarpur Division, Immlichatti, Near Maripur Over bridge, Muzaffarpur-842001
11	Jamui Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Jamui Circle, Near Collectorate, Kalyanpur, Jamui- 811307
12	Lakhisarai Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Lakhisarai Circle, Court Area, Jamui More, Jail Road, Lakhisarai PIN-811311
13	Munger Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Munger Circle, Fort Area, Munger, PIN-811201

Sr. No.	JURISDICTION AREA (STATE-TAX CIRCLE)	NAME & ADDRESS OF FACILITATION CENTRES
1	2	3
14	Madhubani Circle, Jhanjharpur Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Madhubani Circle, Khadi Bhandarroad, Opposite Nagar Nigam Office, Madhubani, Bihar -847211
15	Samastipur Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Samastipur Circle, In front of Main post office, In front of Collectorate, Samastipur - 848101
16	Aurangabad Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Aurangabad Circle, Old GT Road, Block More, Aurangabad -824101
17	Bhabhua Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Bhabhua Circle, Near SBI, Akhalaspur, Bhabhua-821101
18	Nawada Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Nawada Circle, PRASAD BIGHA, OLD RANCHI ROAD, NAWADA - 805110
19	Sasaram Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Sasaram Circle, Near Kali Sthan, Old GT road, Sasaram-821115
20	Biharshariff Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Biharshariff Circle, OPPOSITE POWER GRID, BARI PAHARI, BIHARSHARIF -803101
21	Kadam Kuan Circle, Patna North Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Kadam Kuan Circle, Kautilya Bhawan, Anta Ghat, Gandhi Maidan, Patna-800001
22	Patna West Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Patna West Circle, Kautilya Bhawan, Anta Ghat, Gandhi Maidan, Patna-800001
23	Shahabad Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Shahabad Circle, Civil court area, Near Zila parishad office, Ara-802301
24	Buxar Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Buxar Circle, Infront of Panchmukhi Hanuman temple, Above PNB, Main road, Buxar - 802101
25	Forbesganj Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Forbesganj Circle, Near SDO Court, Forbesganj - 854318
26	Khagaria Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Khagaria Circle, Kachahari Road, Near State Bank Main Branch, Khagaria – 851204

Sr. No.	JURISDICTION AREA (STATE-TAX CIRCLE)	NAME & ADDRESS OF FACILITATION CENTRES
1	2	3
27	Kishanganj Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Kishanganj Circle, Near Bihar Bus Stand, Kishanganj - 855107
28	Madhepura Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Madhepura Circle, Near Purani kachahri campus, Near SDO Court, Madhepura - 852113
29	Saharsa Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Saharsa Circle, Infront of SP office, Saharsa - 852201
30	Supaul Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Supaul Circle, Gaurav Garhchawk, Pipra Road, Supaul-852131
31	Gopalganj Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Gopalganj Circle, Jai Shree Complex, in Front of Ghosh & Sinha Petrol Pump, Thawe Road, Gopalganj- 841428
32	Siwan Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Siwan Circle, In front of Suchana Bhawan, Collectorate Campus, Siwan - 841226
33	Saran 1 Circle, Saran 2 Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Saran -2 Circle, Behind NIC Office, At Collectorate Campus, Chapra -841301
34	Bagaha Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Bagaha Circle, Shastrinagar, Bagaha, Paschim Champaran- 845101
35	Bettiah Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Bettiah Circle, Moharram chowk, Bettiah, Paschim champaran -845438
36	Motihari Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Motihari Circle, Collectorate compound, Near kachaharichawk, Motihari-845401
37	Raxaul Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Raxaul Circle, Aashram road, Raxaul-845305
38	Sitamarhi Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Sitamarhi Circle, Near Durga Mandir, Near Court Compound, Dumra, Sitamarhi-843301
39	Muzaffarpur East Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Muzaffarpur East Circle, Kautilya Bhawan, Near Sadar Hospital, Company Bagh, Muzaffarpur- 842001

Sr. No.	JURISDICTION AREA (STATE-TAX CIRCLE)	NAME & ADDRESS OF FACILITATION CENTRES
1	2	3
40	Jehanabad Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Jehanabad Circle, 1st floor, Vikas Bhavan, Collectorate Campus, Jehanabad -804408
41	Katihar Circle	Facilitation centre (GST Suvidha Kendra), Office of Joint Commissioner of State Tax, Katihar Circle, Mirchai Bari, Katihar - 854105

2. This notification shall come into force from the date of its publication in official gazette.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 3864)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 890-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>